



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 18—फरवरी 24, 2012 (माघ 29, 1933)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 18—FEBRUARY 24, 2012 (MAGHA 29, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. ए-22017/1/2009-पीएमई (वाल्सूम-II)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री हरीश खरे का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 21.1.2012 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री के मीडिया सलाहकार के पद (प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टॉफ में) का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. ए-22017/1/2009-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री पंकज पचौरी को प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टॉफ में कम्युनिकेशन सलाहकार (भारत सरकार के अपर सचिव के रैंक और वेतनमान में) दिनांक 18 जनवरी, 2012 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती है।

2. श्री पंकज पचौरी की प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टॉफ में नियुक्ति, सह-समाप्य आधार पर अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. आरएस.3/1(1)/2010/4-कार्मिक--इस सचिवालय की दिनांक 16.11.2010 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1(1)/2010/113-कार्मिक, दिनांक 17.02.2011 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1(1)/2011/15-कार्मिक तथा दिनांक 01.03.2011 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1(1)/2011/23-कार्मिक के अधिक्रमण में, श्री एच. विल्सन, श्री सतीश मिश्रा और श्री बासवा नन्द, जिन्हें पहले दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1(1)/2009/105-कार्मिक के द्वारा राज्य सभा सचिवालय में 22.12.2009 से स्वस्थाने आधार पर विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब क्रमशः 16.11.2010, 15.02.2011 और 01.03.2011 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्तियों में समायोजित कर दिया गया है। श्री एच. विल्सन विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में श्री सतीश मिश्रा और श्री बासवा नन्द दोनों ही से वरिष्ठ होंगे।

2. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 2 फरवरी 2012

सं. आरएस./20/1/2012/5-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्रीमती सरोज शर्मा, निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन) 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./20/1/2012/6-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री महेश चन्द्र मंगल, संयुक्त निदेशक (वृत्तलेखन) 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. फा. 3(6)/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, वर्तमान में संयुक्त निदेशक, लोक सभा सचिवालय के रूप में कार्यरत श्री प्रशांता कुमार मलिक को दिनांक 2.11.2011 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में उप सचिव के रैंक में संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) के कार्यकाल के सह-अवसानी आधार पर 4 वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2011

सं. फा. 3(9)/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री ज्ञानेश्वर सिंह, भा.पु.से. (एचपी : 1999) को दिनांक 17.11.2011 (अपराह्न) से वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. यह नियुक्ति संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) की इच्छा से और उनके कार्यकाल के सहावसानी या दिनांक 27.08.2015 से अनधिक अवधि, अर्थात् दोनों सेवाओं (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा) में स्वीकार्य अधिकतम 7 वर्ष के संयुक्त कार्यकाल तक या जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2011

सं. फा. 3(9)/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्यरत श्री मुरारी लाल

को दिनांक 24.11.2011 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. उन्हें राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) की इच्छा से और उनके कार्यकाल के सहावसानी या जब तक वे राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 30 दिसम्बर 2011

सं. फा. 3(6)/2010-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री रमेश चंद्र महान्ति को वेतन बैंड-3 अर्थात् रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन रु. 7,600/- सहित दिनांक 02.01.2012 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में उनकी नियमित पदोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

सं. फा. 3(11)/2010-प्रशासन--सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय श्री किरण कुमार, सहायक को मंत्रालय में वेतन बैंड पी.बी.-2 (रु. 9,300--34,800/-) के साथ ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में दिनांक 30.12.2011 से अगले आदेशों तक, स्थानापन्न हैसियत में तथा नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

सं. फा. 3(1)/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री अजय कुमार झा, अनुभाग अधिकारी को मंत्रालय में वेतन बैंड पी.बी.-3 (रु. 15,600--39,100/-) के साथ ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में दिनांक 30.12.2011 से अगले आदेशों तक, स्थानापन्न हैसियत में तथा नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2012

सं. फा. 3(1)/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री अशोक बिहारी आचार्य, अनुभाग अधिकारी को मंत्रालय में वेतन बैंड पी.बी.-3 (रु. 15,600--39,100/-) के साथ ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में दिनांक 02.01.2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्थानापन्न हैसियत में तथा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. 6/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में डॉ. कौशिक गोपालन को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 08.09.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में कु. हर्षिदा एस. मोदी को प्रशासन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.11.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	अंकेश गर्ग	01.08.2011
2.	मोहित सारस्वत	08.08.2011
3.	मनोज कुमार मिश्रा	08.08.2011
4.	मेघा महेश्वरी	08.08.2011
5.	मौ. फुर्कान	08.08.2011
6.	श्री रंगनाथ अन्नं	09.08.2011
7.	शिल्पा मिश्र	09.08.2011
8.	जयदीप कैन्तूरा	11.08.2011
9.	प्रद्युम्न शर्मा	11.08.2011
10.	श्रीमन रक्षीत	11.08.2011
11.	सुनिल कुमार	11.08.2011
12.	अंकुश कुमार	11.08.2011
13.	अनुराग पूषपकर	11.08.2011
14.	कमर साकीब	11.08.2011
15.	अमीत कुमार	11.08.2011

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
16.	धीरज कुमार अदलखा	17.08.2011
17.	अविनाश कुमार	16.09.2011
18.	शशि कान्त पाण्डेय	21.09.2011
19.	बप्पादित्या रे	21.09.2011
20.	विभान्शु कृष्ण मालपानी	21.09.2011

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.जी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 21.10.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

श्री/श्रीमती/कु.

1. असित भट्टाचार्य
2. डॉ. एन. पद्मनाभन
3. डॉ. आर. एम. गैरोला
4. डॉ. राज कुमार
5. ए. एस. दुरै

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 6/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने भिन्नतन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पदों तथा दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आर. नीलकण्ठन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.08.2011
2.	डॉ. एन. के. पटेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.08.2011
3.	के. पी. गुजराती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी	31.08.2011
4.	एस. टी. पटेल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	30.09.2011
5.	रागिनी बी. शास्त्री	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	30.09.2011

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

सं. 6/1(2)/2012-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी. का सेवा

से त्याग-पत्र प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के अपराह्न से स्वीकर करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	श्री/श्रीमती/कु. सोनिया निभानी	26.08.2011
2.	मोनिका गुप्ता	22.11.2011

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. ए. 38012/1/2011-प्रशा.-I (वि.वि.)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री महेन्द्र कुमार, सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधिक सेवा का ग्रेड-IV), विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय दिनांक 31 जनवरी, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एम. आर. बीर, निदेशक प्रशासन

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. ए.19/जी.-ए./107--सुश्री पद्मा एंग्मो (भा. सू. से. : 2002) ने, जिनकी सेवायें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14/4/2011-ई.ओ. (एम. एम.-1), द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई हैं और क्षेत्रीय प्रचार विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 19.12.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-45011/2/2011-प्रशा. के द्वारा कार्य मुक्त होने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, भारत निर्वाचन आयोग में वेतन बैंड-3; रु. 15,600--39,100/- तथा रु. 7,600/- के तदनु रूप ग्रेड वेतन में उप-सचिव के पद पर दिनांक 02.01.2012 (पूर्वाह्न) से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त पद पर बनी रहेंगी।

अजय कुमार, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

सं. 14016/1/2010-यू टी एस-II--गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत, दिल्ली पुलिस के श्री लक्ष्मी नारायण (जन्मतिथि 01.02.1958) निरीक्षक (डी-1/70) को 5 जुलाई, 2011 अर्थात् वह तारीख जिसको उनके एकदम कनिष्ठ निरीक्षक हर्ष मिश्र (डी-1/753) को दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त किया गया था, से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 9,300-34,800/- रु. (ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के

वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं। दिनांक 5 जुलाई, 2011 से अब तक की उनकी पदोन्नति मात्र नोशनल होगी और वे पिछले वेतन हेतु पात्र नहीं होंगे। वे अन्य परिणामी लाभों के लिए हकदार होंगे, जो नियमों के अंतर्गत उन्हें प्रदान किये जा सकते हैं। तथापि, उक्त आदेश को लागू करने से पूर्व, दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करे कि वह सतर्कता की दृष्टि से मुक्त रहे हैं।

2. श्री लक्ष्मी नारायण, निरीक्षक दिल्ली पुलिस की दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्ति डब्ल्यू पी सं. 4210/2007-जगदीश चन्द बनाम भारत संघ तथा अन्य के फैसले के अध्यक्ष होगी।

व्योमेश पंत, अनुभाग अधिकारी

दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. 14016/15/2009-यू टी एस-II--गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से निम्नलिखित फीडर ग्रेड अधिकारियों को 25 नवम्बर, 2010 अर्थात् वह तारीख जिसको उनके अगले कनिष्ठ श्री राम अवतार दोहारे को दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त किया गया था, से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर 9,300--34,800/- रु. (ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं। दिनांक 25 नवम्बर, 2010 से अभी तक की उनकी पदोन्नति मात्र नोशनल होगी और वे पिछले वेतन हेतु पात्र नहीं होंगे। वे अन्य परिणामी लाभों के लिए हकदार होंगे, जो नियमों के अंतर्गत उन्हें प्रदान किये जा सकते हैं:--

क्र. सं.	नाम	जन्म की तारीख	संघ राज्य क्षेत्र का नाम जहां कार्यरत हैं
----------	-----	---------------	---

(सर्व/श्री)

1.	आर. एस. मेहरा (अ.जा.)	01.07.1957	दिल्ली
2.	एम. एल. सिरौही (अ.जा.)	11.08.1953	दिल्ली
3.	के. एस. मीना (अ.ज.जा.)	01.12.1959	दिल्ली
4.	मांगे राम (अ.जा.)	15.07.1956	दिल्ली
5.	नेत राम नारायण (अ.जा.)	31.12.1954	दिल्ली
6.	राधा चरण (अ.जा.)	15.07.1956	दिल्ली
7.	हुकुम सिंह (अ.जा.)	20.01.1955	दिल्ली

ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की आपस में वरिष्ठता समय पर निर्धारित की जाएगी।

2. तथापि, उक्त आदेश को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वे सतर्कता की दृष्टि से मुक्त रहे हैं।

व्योमेश पंत, अनुभाग अधिकारी

सं. 14016/15/2009-यू टी एस-II--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के फीडर ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड में 9,300--34,800/- रु. (ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के वेतनमान में दो वर्ष की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से परीक्षा पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	जन्म की तारीख	उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम जहां नियुक्त हैं
(सर्व/श्री)			
1.	कंवर विनय रावल	21.06.1959	दिल्ली
2.	ओम प्रकाश पाण्डेय	10.05.1956	दिल्ली
3.	श्याम लाल शर्मा	29.07.1956	दिल्ली
4.	मनमोहन शर्मा	14.11.1953	दिल्ली
5.	सुभाष चन्द्र	23.01.1959	दिल्ली
6.	बलवान सिंह वशिष्ठ	01.04.1958	दिल्ली
7.	के. एस. भौरिया (अ.जा.)	05.10.1959	दिल्ली
8.	सत्यपाल कलोरिया (अ.जा.)	15.08.1956	दिल्ली
9.	लाल चन्द मीना (अ.ज.जा.)	12.07.1956	दिल्ली

उपर्युक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता यथा समय निर्धारित की जाएगी।

2. तथापि, उक्त आदेश को लागू करने से पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त अधिकारियों पर सतर्कता की दृष्टि से कोई मामला न रहे।

व्योमेश पंत, अनुभाग अधिकारी

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 नवम्बर 2011

सं. 14016/18/2009-यू टी एस-II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के प्रविष्टि ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा के चयन ग्रेड में 10,000-325-15,200/- रु. (पूर्व

संशोधित) के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करती हैं:-

क्र. सं.	नाम	जन्म की तारीख	चयन ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
(सर्व/श्री)			
1.	संजीव कुमार पांडे	11.04.1967	01.07.2003
2.	पूजा गुप्ता	01.10.1966	01.07.2003
3.	बलवान सिंह जागलान	02.12.1966	01.07.2003
4.	डी. वर्मा	02.02.1967	01.07.2003
5.	पी. एस. जैनी	23.12.1959	01.07.2003
6.	ओ. पी. मिश्रा	23.01.1965	01.07.2004
7.	गीतिका शर्मा	22.09.1970	01.07.2004
8.	अरुण कुमार मिश्रा	01.08.1969	01.07.2004
9.	पंकज कुमार	18.07.1967	01.07.2004
10.	ए. नेदुनचेज़ियान	10.05.1967	01.07.2004
11.	वाई.वी.वी.जे. राजशेखर	04.04.1969	01.07.2004
12.	राज कुमार	28.08.1966	01.07.2004
13.	नीरज भारती (अ.जा.)	18.11.1966	01.07.2004
14.	कमल देव डोगरा (अ.जा.)	18.03.1963	01.07.2004
15.	फिलिप थांगलियांमांग (अ.ज.जा.)	22.02.1964	01.07.2004
16.	आर. पी. मीणा (अ.ज.जा.)	10.07.1965	01.07.2004
17.	जी. सुधाकर	20.05.1968	01.07.2005
18.	रवि	15.04.1972	01.07.2005
19.	गुरपाल सिंह	03.06.1968	01.07.2005
20.	रंजना देसवाल	07.01.1968	01.07.2005
21.	मो. अशान अबीद	06.09.1968	01.07.2005
22.	संजीव कुमार	05.03.1968	01.07.2005
23.	राजेश कुमार	15.06.1971	01.07.2005
24.	शमीन अख्तर तमन्ना	07.04.1970	01.07.2005
25.	सी. अरविन्द	25.05.1965	01.07.2005
26.	सतनाम सिंह (अ.जा.)	01.03.1971	01.07.2005
27.	इदा राजा बाबू (अ.जा.)	01.08.1967	01.07.2005
28.	राजेश चोपड़ा	19.01.1970	01.07.2006

1	2	3	4
	(सर्वश्री)		
29.	मनीष गर्ग	03.07.1973	01.07.2006
30.	सोनिका सिंह	01.10.1974	01.07.2006
31.	संदीप कुमार मिश्रा	30.06.1969	01.07.2006
32.	मो. अली अशरफ	06.11.1971	01.07.2006
33.	अनिल कुमार	20.09.1968	01.07.2006
34.	अनिल बंका	05.02.1973	01.07.2006
35.	बंस राज राम (अ.जा.)	10.05.1965	01.07.2006

ए. के. दास, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
कार्यालय उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. डी III/460/सीएफ-15/2011--राष्ट्रपति, हैदराबाद में बुल्गारिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में डॉ. यदुगिरि किरण कुमार की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं।

डॉ. यदुगिरि किरण कुमार के कौंसली क्षेत्राधिकार में आंध्र प्रदेश राज्य होगा, जिसका केंद्र हैदराबाद होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. ए-19012/8/2005-पीए--उनकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, में प्रधान निजी सचिव, श्री टी. जी. रामाकृष्णन, 31 जनवरी, 2012 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. मीना, अवर सचिव

सं. ए-19013/6/2007-पीए--उनकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, में उप-सचिव, श्रीमती ग्लोरिया कुमार, 31 जनवरी, 2012 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

आर. सी. मीना, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2011

सं. 26/2011-(फा. सं. ए-38012/29/2011-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, श्री आर. वाडिया कनिष्ठ समय वेतनमान में (सेवा-निवृत्त) तत्कालीक

सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (देहांत उपरांत) को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद कर में 17.8.1982 से अर्थात् उस तारीख से जिससे उनका कनिष्ठ श्री बी. बी. चितनिस ग्रेड में पदोन्नत हुआ था, सहायक आयुक्त के ग्रेड में पदोन्नत करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2011

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
स्थापनाएं

सं. 18/2011-(फा. सं. ए-38012/07/2011-प्रशा.II)--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 56(के) के अंतर्गत श्री प्रदीप कुमार भौमिक, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-III की दिनांक 30.06.2011(पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

सर्वजीत सिंह, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2012

सं. ए-19011/317/2012--राष्ट्रपति, सुश्री प्रिया कुमार, भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस : 1991) को 25 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. पीएफजी(1015)/2012-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की फाइल संख्या 13016/2/2011-भा.आ.से. के तहत जारी आदेश संख्या पी-1/2012 दिनांक 19.01.2012 के अनुसरण में सुश्री शिवानी स्वेन, भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी ने भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पे-बैंड 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 10,000/- रु. में उनकी प्रोन्नति के फलस्वरूप कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में 13 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से आर्थिक सलाहकार के पद पर योगदान कर दिया है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. 3/2012 (ए-19011/26/2008-ई-I)--राष्ट्रपति, श्रीमती सुष्मिता दासगुप्ता को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में

37,400--67,000/- रुपए के वेतनमान जमा 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन पर 20 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश आने तक, आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. 2/2012(ए-19011/24/2007-ई-1)--राष्ट्रपति द्वारा सुश्री अनु पोल्लोज मथाई, भारतीय आर्थिक सेवा (1995) को दिनांक 16 जनवरी 2012 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक 37,400-67,000/- रु. (पीबी : 4) के वेतन बैंड जमा 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2012

सं. ए-32014/2/2011-संवर्ग--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 दिसंबर, 2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-1 (यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव के नाते स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	केन्द्रीय चयन सूची सं.	नाम	जन्म तिथि	अनुभाग अधिकारी चयन सूची	कार्यभार ग्रहण करने/प्रोन्नति की तारीख
		(सर्वश्री)			
1.	6942	राम निवास पराशर	06.01.1957	2003	23.12.2011 (पूर्वाह्न)
2.	7128	धरमवीर यादव	08.02.1966	2003	22.12.2011 (पूर्वाह्न)

2. यह तदर्थ प्रोन्नति 31.5.2012 तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगी और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सी.एस.-I (यू) में उल्लिखित शर्तों के अध्याधीन होगी।

3. श्री रामनिवास पराशर और धरमवीर यादव, अवर सचिवों को विद्यमान रिक्ति पर पूर्ति तथा निचयन महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

संजय शंकर, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. ए-45011/3/2010-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.01.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सीएस.I (एस) के अनुसरण में, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की नियमित

सहायक श्रीमती शीला शर्मा को दिनांक 01.01.2012 से 31.01.2012 तक, अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध कराने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर की गई है तथा इससे उन्हें इस तद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा उसी ग्रेड में नियमित किए जाने या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सरकार को यह अधिकार होगा कि संबंधित अधिकारी को बिना कारण बताए या नोटिस दिए, वह तदर्थ नियुक्ति को समाप्त कर सके।

3. सतर्कता की दृष्टि से श्रीमती शीला शर्मा के विरुद्ध कोई मामला नहीं है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. ए-45011/04/2006-ई-1--राष्ट्रपति, अनुभाग अधिकारी ग्रेड संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2006 के परिणामों के आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के लिए आवंटित निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के आगे दर्शायी गई तारीख से अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सीएसएस संवर्ग में वर्ष 2006 की चयन सूची के लिए नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	रैंक संख्या	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री राहुल देव दिवाकर	07	14.11.2011
2.	श्री कुलविन्दर सिंह	26	21.11.2011
3.	श्री असगर अली	31	18.11.2011

2. उपर्युक्त अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणामों के अध्याधीन होगी :--

- कैट, नई दिल्ली में श्री सौरांशु सिन्हा बनाम यूओआई द्वारा ओए सं. 1083/ 2007 एम.ए. संख्या 1171/2007 तथा 2011 का एमए।
- कैट, नई दिल्ली में श्री ए. के. नन्दी और अन्य बनाम यूओआई द्वारा दायर ओए सं. 2136/2010।
- कैट, नई दिल्ली में श्री विकास त्रिपाठी और अन्य बनाम यूओआई द्वारा दायर ओए सं. 2469/2010।
- कैट, नई दिल्ली में श्री ए. प्रकाश और अन्य बनाम यूओआई द्वारा दायर ओए सं. 1253/2009।
- कैट, नई दिल्ली में श्री प्रदीप कुमार मंडल बनाम यूओआई एवं अन्य द्वारा दायर ओए सं. 2584/2011 और एम.ए. सं. 1987/2011।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. ए-32015/1/2009-आ.स. (प्रशा.1)-राष्ट्रपति, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के निम्नलिखित कनिष्ठ अन्वेषकों को दिनांक 13.05.2011 से 12.05.2012 तक एक वर्ष की अवधि या नियमित वृत्ति भोगी के पद ग्रहण करने तक जो भी पहले हो, के लिए इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर आर्थिक अधिकारी के (वर्ग 'ख' राजपत्रित) पद पर पी. बी.-2 में वेतन रुपये 9,300--34,800/- और ग्रेड वेतन रुपये 4,600/- के वेतनमान में नियुक्त करते हैं :-

1. श्रीमती शालिनी भटनागर

2. श्री के. अप्पा राव

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर की गई है, जिसके लिए उक्त अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को इन पदों पर बने रहने या इन ग्रेडों में वरियता मांगने या स्थाई होने का कोई अधिकारी नहीं होगा। सरकार संबंधित अधिकारियों की उक्त तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना या सूचना आदि दिए बिना ही समाप्त कर सकती है।

एस. एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. पी-23011/4/2011-विपणन--केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार, एतद्वारा श्री पी. के. बिश्नोई को, उनके द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

सुषमा रथ, निदेशक (विपणन)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. ए-12011/9/2004/मा.सं.-II--राष्ट्रपति, उर्वरक विभाग, में नियमित सहायक आयुक्त (जहाजराणी) के पद पर तौर पर कार्यरत श्री तपन दत्ता को पदोन्नति पर वेतनमान 15,600--39,100/- रुपए ग्रेड पे 7,600/- रुपए में दिनांक 04.07.2011 से उप आयुक्त (बन्दरगाह, प्रचालन और परियोजना) के पद पर सहर्ष नियुक्त करती है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 7 सितम्बर 2011

सं. ए-19011/11/2011-मा.सं.-II--कार्यालय आदेश सं. 12015/1/2011 (आईएसएस) दिनांक 30.08.2011 के तहत तदर्थ आधार पर भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ समयमान के पे बैंड-3 के वेतनमान

15,600--39,100/- रुपए ग्रेड पे 5,400/- रुपए में पदोन्नत होने और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मेरठ एसआरओ के कार्यमुक्ति आदेश सं. 4/1/जी.ए.ओ./मेरठ/2011/3131, दिनांक 05.09.2011 के उपरान्त श्री विरेंद्र कुमार को उर्वरक विभाग के पे रोल में पे बैंड-3 के 15,600--39,100/- रुपए, ग्रेड पे 5,400/- रुपए के साथ अनुसंधान अधिकारी के रूप में 06.09.2011 को एक दिन का कार्यग्रहण समय लेने के पश्चात दिनांक 07.09.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

उनकी तैनाती पीएण्डआई अनुभाग में की जाती है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 8 नवम्बर 2011

सं. ए-19011/14/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 नवम्बर, 2011 के का.ज्ञा.सं. 6/41/2011-ईओ (एसएम.-1) के अनुसरण में श्री अजय भट्टाचार्य, आईएसएस (टीएन:77) को उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में 2 नवम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से सचिव के पद पर नियुक्त करती है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2011

सं. ए-32011/04/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 25.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/1/2011-सीएस-II(ए)(भाग) के अनुसरण में सुश्री शोभना मेनन को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड पे रु. 6,600/- सहित 01.11.2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदर्थ पदोन्नति की अवधि 31.03.2012 अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा न जाए अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति डीओपीटी के दिनांक 25.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए)(भाग) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 15 नवम्बर 2011

सं. ए-32011/8/2007-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 04.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/5/2011-सीएस-I(एस), के अनुसरण में श्री एस. के. पांडेय और श्रीमती गीता जौहरी, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित सहायक हैं, को उर्वरक विभाग में पे-बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 09.11.2011 पूर्वाह्न से 31.12.2011

तक अथवा अगले आदेश अथवा रुद के नियमित आधार पर भरे जाने, जो भी पहले हो तक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। बशर्ते यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपरोक्त पद का.ज्ञा. में विहित निबंधन और शर्तों के अनुसार हो।

सौमित्र चंदा, अवर सचिव

दिनांक 20 दिसम्बर 2011

सं. ए-23011/16/2010-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 27.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/3/2011-सीएस-I(एस) के अनुसरण में और संयुक्त अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रुप 'बी'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 में अर्हता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री योगेश ढींगड़ा, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित सहायक है, को वर्ष 2008 की चयन सूची के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 18.11.2011 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सौमित्र चंदा, अवर सचिव

सं. ए-23011/16/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 27.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/3/2011-सीएस-I(एस) के अनुसरण में और संयुक्त अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रुप 'बी'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 में अर्हता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री विजय कुमार, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित सहायक है, को वर्ष 2008 की चयन सूची के अनुसार उर्वरक विभाग के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 18.11.2011 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। श्री विजय कुमार को दिनांक 18.11.2011 के पूर्वाह्न से रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में नियुक्त किया जाता है।

सौमित्र चंदा, अवर सचिव

सं. ए-23011/16/2011-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 27.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/3/2011-सीएस-I(एस), के अनुसरण में और संयुक्त अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रुप 'बी'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 में अर्हता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप श्री शाह फेज़ अहमद, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित सहायक है, को वर्ष 2007 की चयन सूची के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड पे रु. 4,800/- सहित 01.12.2011 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। श्री शाह

फेज़ अहमद, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 01.12.2011 के पूर्वाह्न से औषध विभाग में नियुक्त किया जाता है।

सौमित्र चंदा, अवर सचिव

दिनांक 23 दिसम्बर 2011

सं. ए-12011/11/2004-मा.सं.-II--सक्षम प्राधिकारी श्री सुरेश कटारिया, सहायक निदेशक (प्रकार्यात्मक) को दिनांक 23.12.2011 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति आधार पर उर्वरक विभाग में पे बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रुपए, ग्रेड पे 4,800/- रुपए में समूह 'ख' (राजचरित) पद पर सहायक निदेशक (लेखा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सौमित्र चंदा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2012

सं. 12/12/2011-एसओ--राष्ट्रपति, श्री संतोष अरुण पाटिल, उपमहाप्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे की कोयला राज्य मंत्री (श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटिल) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में निदेशक स्तर पर दिनांक 01 फरवरी, 2012 (पूर्वाह्न) से को पांच वर्षों की अवधि तक अथवा मंत्री जी के साथ कोर्टमिनस आधार पर अथवा मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में उनके द्वारा कार्य करना बन्द करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी सबसे पहले हो, नियुक्त करते हैं।

शरद जोडके, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. 6-1/2006-बी.पी.-2(अधिसूचना)--पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में दिनांक 12.07.2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित कार्यकरण को प्रभावित कर रही कमियों की जांच करने के लिए दिनांक 01.12.2006 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा न्यायमूर्ति डी. पी. वधवा की अध्यक्षता में केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिनांक 08.05.2007 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल 31.08.2007 तक बढ़ाया गया था। केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल दिनांक 13.02.2008 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा 11.01.2008 से और 6 माह के लिए बढ़ाया गया था और 08.04.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के ज़रिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 01.09.2007 से 10.01.2008 तक की बीच की बख़ाई गई अवधि को केन्द्रीय सतर्कता समिति के बड़े हुए कार्यकाल के रूप में माना गया था। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.07.2008, 17.04.2009, 07.12.2009, 05.05.2010, 15.12.2010, 29.03.2011 और 30.09.2011

के निर्देशों के अनुसार दिनांक 18.07.2008, 04.05.2009, 22.12.2009, 28.05.2010, 11.01.2011, 18.05.2011 और 03.11.2011 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के तहत केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल क्रमशः अप्रैल, 2009 और दिसम्बर, 2009 के अंत तक, जून, 2010, 31.12.2010, 31 मार्च, 2011, 30.09.2011 और 31.12.2011 तक बढ़ा दिया गया था।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने 05.01.2012 के अपने आदेश के जरिए केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल 30.06.2012 तक बढ़ा दिया है।

अतः केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल 30.06.2012 तक बढ़ाया जाता है।

डी. भल्ला, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2012

सं. ए-32013/1/2010-स्था.-I--राष्ट्रपति, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I (यू) के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्रीमती आशा सिंघल को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 16 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से (पीबी-3) 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव (ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करती है।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I (अवर सचिव) में श्रीमती आशा सिंघल की नियुक्ति 31.05.2012 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक, जो भी पहले हो अथवा अगले आदेश होने तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर है।

3. उपर्युक्त नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण के ऊपर उल्लिखित दिनांक 15.12.2011 के का.ज्ञा. में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अधधीन है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 19 जनवरी 2012

सं. ए-38014/11/2011-स्था.-I--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम कुमार अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए-38014/11/2011-स्था.-I--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री सुशील लॉरेन्स सिंह अधिवर्षिता की आयु होने पर 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. ए-38012/1/2012-एस.आर.ए.--उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सामान्य केन्द्रीय सेवा के श्री के. एम. निमजे, उप निदेशक (एस एण्ड आर) 01 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक तौर पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आर. सी. मनोचा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 27 जनवरी 2012

सं. एस.एम./01/08/2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सैन्य अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में Sécondment/absorption पर स्थानापन्न पद पर उप अधीक्षक सर्वेक्षक (पूर्व संशोधित वेतनमान रुपए 8,000--13,500/-) रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में उनके समक्ष दी गई तारीख से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	मेजर क्षितिज एस. वर्मा	15.11.2011
2.	मेजर कुणाल एस. बोरकर	14.11.2011
3.	मेजर अरविंद जदली	16.11.2011
4.	मेजर अर्जुन सम्पत	14.11.2011
5.	मेजर के. ए. ग्रेवाल	14.11.2011
6.	मेजर रजत शर्मा	14.11.2011

नीरज के. गयागी, निदेशक

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(प्रधान लेखा कार्यालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. प्र.ले.का./पृथ्वी/प्रशा./टी.पी./2011-2012/97--राष्ट्रपति, श्री कृष्ण कुमार जौहरी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी को अधिवरीयता की आयु प्राप्त करने पर 31 जनवरी 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

जगदीश प्रसाद, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. 17015/01/2010-भा.व.से.-II--केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966, के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में दिए गए अधिकारियों को कॉलम 3 में दी गई संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित संवर्ग आबंटित करती है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के लिए संवर्ग अधिकारी का आशय भारतीय वन सेवा परीक्षा 2008 के परिणामों के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवा में नियुक्त भारतीय वन सेवा के सदस्य से है।

क्र. सं.	नाम	आवंटित संवर्ग
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	सुश्री टी. उमा	केरल
2.	श्रीनाथ एन.	गुजरात
3.	अभिषेक गौतम	मध्य प्रदेश
4.	विनय कुमार	उत्तराखंड
5.	अंजन कुमार बी. एन.	केरल
6.	सुश्री कमला के.	कर्नाटक
7.	राहुल वी. सी.	तमिलनाडु
8.	अनुपम सहाय	मध्य प्रदेश
9.	वी. एस. एन. वी. प्रसाद	आंध्र प्रदेश
10.	पंकज कुमार	उत्तराखंड
11.	प्रशांत कुमार सिंह	मध्य प्रदेश
12.	मनोज कुमार शुक्ला	उत्तर प्रदेश
13.	आर. सैथिलकुमारन	गुजरात
14.	राम चंद्र राजगुरु	उत्तराखंड
15.	कार्तिक वी.	उड़ीसा
16.	अग्नि मित्रा	एजीएमयूटी
17.	सुश्री किरन बाई	मध्य प्रदेश
18.	अभिषेक कुमार सिंह	छत्तीसगढ़
19.	सोहित कुमार निगम	राजस्थान
20.	सुश्री हरिणी बी.	राजस्थान
21.	शंभू कुमार	राजस्थान
22.	सुनील	राजस्थान
23.	नामइराकपम जसवंत	सिक्किम
24.	शशि शंकर	राजस्थान
25.	आर अदलाससन	केरल
26.	टी वी केरिकालन	राजस्थान
27.	अरूण आर. एस.	मणिपुर-त्रिपुरा
28.	आर. के. अमरजीत सिंह	मणिपुर-त्रिपुरा
29.	विवेकानंद झा	छत्तीसगढ़

1	2	3
(सर्वश्री)		
30.	अभिजीत अग्रवाल	बिहार
31.	तेजस्वी एस. एन.	तमिलनाडु
32.	नवनीत सिंह बैस	पंजाब
33.	विनोद कुमार डी. के.	मणिपुर-त्रिपुरा
34.	तन्वीड अहमद देवा	जम्मू और कश्मीर
35.	एम्. एस. अरूण महेश बाबू	उड़ीसा
36.	प्रकाश चंद गोगिनेनी	उड़ीसा
37.	प्रतीक भाटिया	असम-मेघालय
38.	अनीशा कलकूर एम.	एजीएमयूटी
39.	कैपटी हेमंत भास्कर	नागालैंड
40.	कुलदीप	एजीएमयूटी
41.	सौरभ शर्मा	एजीएमयूटी
42.	पारस धुनि त्रिपाठी	एजीएमयूटी
43.	श्रीमती मीनाक्षी प्रसाद	पश्चिमी बंगाल
44.	एन. पालनीकांथ	एजीएमयूटी
45.	श्रीमती सी. मीनाक्षी	महाराष्ट्र
46.	श्रीराम ने.	जम्मू और कश्मीर
47.	बी. मोहनदास	जम्मू और कश्मीर
48.	टी. मोहन राज	राजस्थान
49.	बाला जी केरी	राजस्थान
50.	राजीव धीमन	उत्तराखंड
51.	आकाश कुमार वर्मा	उत्तराखंड
52.	संजया कुमार स्वैन	उड़ीसा
53.	योगीनाथ आर	एजीएमयूटी
54.	हरिकेश मीना	राजस्थान
55.	सी. विश्वासगर	एजीएमयूटी
56.	मणिवासराज एम.	छत्तीसगढ़
57.	श्रीमती बानुमती जी.	मणिपुर-त्रिपुरा
58.	मधु वी. राज	मध्य प्रदेश
59.	वी. भास्करन	झारखंड
60.	श्रीमती यशोदा के.	एजीएमयूटी
61.	टी. करुणामामी	गुजरात
62.	एम. प्रभु	मणिपुर-त्रिपुरा
63.	किरूपासंकर एम.	हिमाचल प्रदेश

1	2	3
	(सर्वश्री)	
64.	सुधांसु सेखर खोरा	उड़ीसा
65.	अरूलराजन पी.	एजीएमयूटी
66.	सुरत्ता सुर शान शेर शेरपा	पश्चिमी बंगाल
67.	धर्म सिंह मीना	उत्तराखंड
68.	वाहुल प्रदीपचंद्र पी.	उत्तराखंड
69.	टी. आओचुबा	नागालैंड
70.	पुरुषोत्थम पी.	गुजरात
71.	नैनामलाई आर.	असम-मेघालय
72.	शिवानंद एस. तलवार	मणिपुर-त्रिपुरा
73.	अरून कुमार आर.	मणिपुर-त्रिपुरा
74.	मिल्लो तासर	नागालैंड

विवेक सक्सेना, निदेशक

दिनांक 23 जनवरी 2012

सं. 24012/03/2010-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, श्री अमर प्रसाद, भा.व.से. (जे एच : 1980) द्वारा दिनांक 19 मई, 2010 को भारतीय वन सेवा से दिए गए त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किए जाने और कृषक भारतीय कोपरेटिव लिमिटेड (कृषको), नोएडा में उनके स्थायी आमेलन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री अमर प्रसाद, कृषको में उनके स्थायी आमेलन होने पर सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे।

विवेक सक्सेना, निदेशक (भा.व.से.)

दिनांक 25 जनवरी 2012

सं. 23012/03/2012-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा के पंजाब संवर्ग के 1976 बैच के अधिकारी श्री बलवीर चंद को, उनका नाम श्री बलवीर चंद से बदलकर श्री बलवीर चंद बाला करने की अनुमति दी जाती है और अब से वे सरकारी कार्यों के लिए श्री बलवीर चंद बाला के नाम से जाने जाएंगे।

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. ए-12012/02/2011-सीपीडब्ल्यू--राष्ट्रपति, द्वारा श्रीमती मीरा महर्षि, अपर सचिव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर सचिव के उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त 2 फरवरी, 2012 (पूर्वाह्न) से तीन माह अर्थात् 1 मई, 2012 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली का पदभार सौंपा जाता है।

राशिद हसन, निदेशक (सीपी)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. ए-12021/02/2011-सीपीडब्ल्यू--राष्ट्रपति, डॉ. संत प्रसाद गौतम को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल पूरा होने पर 1 फरवरी 2012 (अपराह्न) से उपर्युक्त पद से कार्यमुक्त करते हैं।

एन. ए. सिद्दीकी, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. ए-12025/03/2010-के.स्वा.सेवा.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. राजेश कुमारी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 18 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-II (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के पद पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/02/2010-के.स्वा.सेवा.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. रेखा भारती को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 16 नवम्बर, 2010 के अपराह्न से तथा अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-II (प्रसूति एवं स्त्री रोग) के पद पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110108, दिनांक 18 जनवरी 2012

सं. ए-32013/03/2010-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.12.2011 और 11.01.2012 के कार्यालय आदेश सं. 03.01.2012-सीएस-I (डी) के अनुसरण में, वर्ष 2010 के लिए नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयनित ग्रेड (उप सचिव) चयनित सूची में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग में सीएसएस के श्री आर.के. परमार, ग्रेड-I (अवर सचिव) का नाम नियमित आधार पर शामिल होने के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 06.08.2010 (अपराह्न), उनके कनिष्ठ श्री ओम प्रकाश के पदोन्नत होने की तारीख, से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में एतद्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. ए-19012/02/2010-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.01.2012 के आदेश सं. 5/1/2012-ई ओ (एसएम-1) के अनुसरण में, सुश्री अनुराधा गुप्ता, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 81) को श्री पी. के. प्रधान, भा.प्र.से. (प.बं. : 77) के रिक्त

स्थान पर 30 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

अनिल कुमार, अपर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2012

सं. ए-38012/2/2009-ई-1(आयुष)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, डॉ. जनार्दन पाण्डेय, संयुक्त सलाहकार (आयु.), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 31.01.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

चन्द्र शेखर, अपर सचिव

स्वास्थ्य सेवा-महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. ए-38012/07/2011-प्रशा.-I--श्री जगन नाथ शर्मा, प्रधान निजी सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2011 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक (प्रशा.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2012

सं. एल-12011/02/2011-आई एवं पी--राष्ट्रपति द्वारा श्री चन्द्र भूषण पालीवाल, आईएस (उत्तर प्रदेश : 81) को 10.01.2012 के अपराह्न से अगले आदेश होने तक 67,000--79,000/- रु. के वेतनमान (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) में प्रबंध निदेशक के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली में नियुक्त किया जाता है।

आर. के. सिंह, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. 19011/386/198-स्था.-II--सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के पश्चात् श्रीमती सेलिम्मा जॉर्ज, सहायक निदेशक (फसल), कृषि एवं सहकारिता विभाग को सी सी एस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम-48(ए) के प्रावधानों के अनुसार 01.01.2012 से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी जाती है।

को. संजयन, अपर सचिव

पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. ए-15012/5/2011-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद, इस विभाग के श्री सुख दयाल सिंह, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अपर सचिव

सं. ए-15012/6/2011-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद, इस विभाग के डॉ. बी.आर. आचार्य, सहायक आयुक्त (पशुपालन) को दिनांक 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अपर सचिव

सं. ए-15012/09/2011-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद, इस विभाग के श्री बी.सी. मेहता, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को दिनांक 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अपर सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. ए-19011/03/2012-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 25.11.2011 के पत्रांक 3/35(7)/2011-एसीटी.2 के तहत उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, डॉ. वी. के. अरोड़ा को पे. बैं.-4, 37,400--67,000/- रु., ग्रेड पे-8,700/- + एन.पी.ए. (यथा स्वीकार्य) के वेतनमान में 01 फरवरी, 2012 पूर्वाह्न से पशुपालन, डेरी और म.पा. विभाग में संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) के रूप में नियुक्त करती है।

सुभाष चन्द्र खत्री, अपर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

सं. एफ-40-15/2010-पुस्तकालय--श्री मुनेश सेन, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, संस्कृति मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक, को. 03.01.2011 (पूर्वाह्न) से संशोधित पीबी-2 के वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (सामान्य) समूह 'ख' राजपत्रित के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है।

एन. अमर. मिंज, अपर सचिव

दिनांक 25 जनवरी 2012

सं. एफ-40-12/2011-पुस्तकालय--संस्कृति मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार के श्री राकेश गोस्वामी, पुस्तकालय और सूचना सहायक

को नियमित आधार पर सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (सामान्य) समूह 'ख' राजपत्रित पद पर संशोधित वेतन बैंड पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे. रु. 4,600/- में दिनांक 20.01.2012 (अपराह) से प्रोन्नत कर दिया गया है।

एन.आर. मिंज, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. 13033/1/1996-एस.सी.डी.-6--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री विनय रंजन मल्होत्रा, निदेशक (संयुक्त संवर्ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 31 जनवरी, 2012 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त किए जाते हैं।

एम.ए. मुरलीधरन, उप सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जनवरी 2012

शुद्धि-पत्र

सं. ई-11011/7/2008-हिन्दी--अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के बारे में मंत्रालय के दिनांक 29.11.2011 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन स्वरूप क्रम सं. (25) पर की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:--

के स्थान पर

(25) सहायक आयुक्त,
भाषाजात अल्पसंख्यक कार्य

पठित

(25) आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यक

ई.आर. सोलोमन, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. ए-22012/1/2006-स्था.--राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/38/2011-ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में श्री यशपाल सिंह, भा.प्र.से. (म.त्रि. : 84) को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वेतन बैंड-4, (रु. 37,400--67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 10,000/-) में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 24 जनवरी 2012 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करती हैं।

लुकास एल. कासुआन, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. 11019/2/2005-स्थापना--वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 19.01.2012 के कार्यालय आदेश सं. 13016/2/2011-आईईएस के अनुसरण में राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में सलाहकार श्री अमर सिंह, आईईएस : 84 के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में सलाहकार के रूप में नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 31.01.2012 (अपराह) से कार्यमुक्त करते हैं।

2. दिनांक 31.01.2012 के अपराह से इस मंत्रालय में सलाहकार श्री अमर सिंह की सेवाएं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को सौंपी जाती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

सं. ए-32013/4/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री मदन चौरसिया [सीएसएल. सं. 6884 एसओएसएल : 2003] को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.08.2011, 06.09.2011 एवं 14.12.2011 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-I (यू) जो दिनांक 11.08.2011 के पूर्वाह से लागू है, की शर्तों के अनुसार 6,600/- रु. वेतन ग्रेड सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 11.08.2011 से 31.05.2012 की अवधि तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो या इस संबंध में आगे कोई आदेश होने तक तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है:--

- (i) तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम शामिल करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी ग्रेड-I की वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अधिकारी जिसने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना के रूप में शामिल किया गया अनिवार्य स्तर 'घ' प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वह छह माह के अंदर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
- (iv) अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित श्री वी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक के ओए सं. 3294/2009 के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

- (v) जैसाकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष लब्धित विभिन्न आवेदनों में वर्ष 2003 के एसओ की सीएसएल को चुनौती दी गई है जिस एसओ की सीएसएल 2003 के प्रकाशन के समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2011 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ तक वर्ष 2003 के एसओ से ब्रुस के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति का संबंध है यह उक्त ओएस को उल्लिखित विभिन्न अदालती मामलों के निर्णयों के अधीन है।

एन. पी. केशवन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. 100/11/2012-एसटीसी-I--अत्यंत दुःख के साथ अधिसूचित किया जाता है कि श्रीराम सबीवन (स्टाफ सं. 33383), भारतीय दूरसंचार सेवा समूह-क के वरिष्ठ टाइम स्केल (तदर्थ) अधिकारी, जो दूरसंचार विभाग मुख्यालय, नई दिल्ली में सहायक महानिदेशक (एसयू-III) में कार्यरत थे, का 18.01.2012 को देहवसान हो गया।

डी. एन. सोह, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. 4(446)/89-कार्मिक-I--सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अंतर्गत सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस स्वीकार कर लिए जाने पर श्री आर. के. दुबाश, वैज्ञानिक 'ई' (कर्मचारी कोड सं. 185), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिनांक 24.01.2012 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पी. डी. कश्यप, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 फरवरी 2012

सं. पीएफ/3672/एनआईसी/2010-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती गीता टिक्कर, कर्मचारी कोड सं. 3672 का वैज्ञानिक-सी के पद से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, तमिलनाडु राज्य चैन्नई से उनकी उपस्थिति की अन्तिम तारीख से अर्थात् 10.03.2009 (अपराह्न) से त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से उनकी इच्छा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशासन-I)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2012

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/02--श्री कुमार केशव, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आईआरएसई (जन्म तिथि : 22.07.60) (डीआईटीएस : 25.06.84)

(स्थान : दक्षिण पूर्व रेलवे) का डीएमआरसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 23.12.2011 (अपराह्न) से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 30 जनवरी 2012

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/08--श्री ओ. एच. पांडे, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आईआरएसई, (जन्म तिथि : 30.06.63, डीआईटीएस : 01.09.86) का डीएमआरसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 23.12.2011 से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/10--श्री ए. के. गार्ग, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आईआरएसई, (जन्म तिथि : 03.09.59, डीआईटीएस : 16.06.84) का डीएमआरसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 23.12.2011 से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/12--श्री ए. के. सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आईआरएसई, (जन्म तिथि : 09.04.57, डीआईटीएस : 10.09.84) का डीएमआरसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 23.12.2011 से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 31 जनवरी 2012

सं. ईआरबी-1/2011/2/67--राष्ट्रपति जी, श्री आर. विजय मोहन, एचएजी/आईआरएसई, सलाहकार (यांत्रिक इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड की 12.01.2012 के पूर्वाह्न से ग्रेड रु. 75,500--80,000/- में पदोन्नति होने पर अवर सदस्य (यांत्रिक इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2011/2/66--राष्ट्रपति जी, श्री एम. सुरेश, एचएजी/आईआरएसई, सलाहकार (सिगनल), रेलवे बोर्ड की 06.01.2012 के

पूर्वाह्न से ग्रेड रु. 75,500--80,000/- में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (सिगनल), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/11--श्री महेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/(नॉन-फंक्शनल)/आईआरएसईई, (जन्म तिथि : 10.04.64, डीआईटीएस : 05.05.89) का डीएमआरसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 23.12.2011 से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 2 फरवरी 2012

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/13--श्री विरेन्द्र सिंह, भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी का आईआरसीटीसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 30.12.2011 से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/09--श्री ए. के. गुप्ता, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/आईआरएसईई, (जन्म तिथि : 26.06.60, डीआईटीएस : 16.06.84) का डीएमआरसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 23.12.2011 से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)-III-2011/आरएन/21--श्री राकेश सक्सेना, भारतीय रेल यातायात सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, (जन्म तिथि : 25.11.54, डीआईटीएस : 14.12.79) का एमआरवीसी में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 04.11.2011 से रेलवे सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय
(स्था अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2012

सं. ए-22012/1/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री धीरेंद्र कुमार पूर्वे, (सीएसएल सं. 7102) अनुभाग अधिकारी को पोत परिवहन मंत्रालय में

पे बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में दिनांक 29.12.2012 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सी.एस.एस. की श्रेणी-I) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति इन शर्तों पर की जाती है कि तदर्थ प्रोन्नति बिना सीमा के इस ग्रेड में जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति की चयन सूची में समावेश अथवा चयन श्रेणी में वरिष्ठता संबंधी दावा का अधिकार नहीं देती। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी कारण बताये, समाप्त की जा सकती है।

अश्वनी कुमार, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 24 जनवरी 2012

सं. ए-19011/3/2012-स्था.--राष्ट्रपति, श्री मुनीष चन्द्र जौहरी, आईएसएस (एम : 87) को पीबी-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/- के वेतनमान में दिनांक 19.01.2012 (पूर्वाह्न) से आगामी पांच वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-100001, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

सं. ए-22012/2/2011-स्था.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को तदर्थ आधार पर पोत परिवहन मंत्रालय में पे बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथियों से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो अवर सचिव (सी.एस.एस. की श्रेणी-I) के पद पर तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्री सुप्रिया रंजन दत्ता (सीएसएल सं. 6880) 03.10.2011 (पूर्वाह्न)
2. श्री अजय कुमार सिंह (सीएसएल सं. 6885) 03.10.2011 (पूर्वाह्न)
3. श्रीमती कंचन बाला हमज़ा (सीएसएल सं. 6986) 24.08.2011 (पूर्वाह्न)
4. श्री रमेश चन्द्र सेठी (सीएसएल सं. 7160) 24.08.2011 (पूर्वाह्न)
5. श्री प्रदीप कुमार शर्मा (सीएसएल सं. 6930) 17.08.2011 (पूर्वाह्न)

2. श्री सुप्रिया रंजन दत्ता एवं श्री अजय कुमार सिंह की अवर सचिव के रूप में प्रोन्नति की दिनांक 11.08.2011 समझी जाएगी।

3. यह नियुक्ति इन शर्तों पर की जाती है कि तदर्थ प्रोन्नति बिना सीमा के इस ग्रेड में जारी रहने का अधिकार नहीं देती एवं नियमित नियुक्ति की चयन सूची में समावेश एवं श्रेणी-I में वरिष्ठता संबंधी दावा नहीं किया जाएगा और तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

अनुराग शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2012

सं. 05/2012. फा. सं. 12/14/2011-प्रशा. II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सुभाष चन्द्र, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय 31 जनवरी, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2012

सं. 16/2012, फाईल संख्या 3/2/2011-स्थापना एक--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के निम्नलिखित अधिकारियों को उसी सेवा में पदोन्नति पर, उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में रु. 67,000-79,000/- के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं:--

क्र. नाम सं. और पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1. शंकर महतो, अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी., पटना	12.12.2011 (अपराह्न)
2. सी. एम. पण्डित, सदस्य (डब्ल्यू.पी. एवं पी.) केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।	04.01.2012 (अपराह्न)

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2012

सं. ए-12025/1/2009-आईआईएस/87--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के परिणाम के आधार पर श्री सुधीर सिंह (रैंक सं. 922) को दिनांक 29.08.2011 से 5,400/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड (8,000-275-13,500/- रु. के संशोधन-पूर्व वेतनमान) में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है।

2. वह भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (समाचार) के रूप में तैनात किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/1/2009-आईआईएस/88--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2010 के परिणाम के आधार पर श्री के. एस. रमेश भारती (रैंक सं. 910) को दिनांक 04.01.2012 से 5,400/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड (8,000-275-13,500/- रु. के संशोधन-पूर्व वेतनमान) में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है।

2. वह भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (समाचार) के रूप में तैनात किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/3/2008-आईआईएस (खंड-II)/92--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2009 (आरक्षित सूची) के परिणाम के आधार पर श्री नितेश झा (रैंक सं. 928) को दिनांक 02.01.2012 (पूर्वाह्न) से 5,400/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड (8,000-275-13,500/- रु. के संशोधन-पूर्व वेतनमान) में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है।

2. वह भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/3/2008-आईआईएस (खंड-II)/93--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2009 (आरक्षित सूची) के परिणाम के आधार पर सुश्री नविका गुप्ता (रैंक सं. 907) को दिनांक 30.12.2011 (पूर्वाह्न) से 5,400/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड (8,000-275-13,500/- रु. के संशोधन-पूर्व वेतनमान) में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती है।

2. वह भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक समाचार सेवा प्रभाग: आकाशवाणी, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (समाचार) के रूप में तैनात किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/3/2008-आईआईएस (खंड-II)/94--राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2009 (आरक्षित सूची) के परिणाम के आधार पर श्री अनुराग जैन (रैंक सं. 944) को दिनांक 30.12.2011 (अपराह्न) से 5,400/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड (8,000-275-13,500/- रु. के संशोधन-पूर्व वेतनमान) में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

2. वह भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (एमएंडसी) के रूप में तैनात किया गया है।

नीरज कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 2012

सं. 3/2/2011-स्थापना--शहरी विकास मंत्रालय के पी एस पी प्रभाग के दिनांक 13 जनवरी, 2012 के कार्यालय आदेश सं. ए-12023/1/2011-प्रिंटिंग

के आधार पर निदेशक (मुद्रण) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप श्री ए. के. सिन्हा, संयुक्त निदेशक (तकनीकी), मुद्रण निदेशालय ने 13 जनवरी, 2012 के अपराह्न से मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय में संशोधित वेतनमान पी.बी.-4 रु. 37,400--67,000+ग्रेड वेतन 8,900/- रु. (संशोधन-पूर्व वेतनमान रु. 16,400-400-18,300/-) में निदेशक (मुद्रण) के पद का स्थानापन्न रूप से कार्य-भार अगले आदेश होने तक या नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, सम्भाल लिया है।

2. तदर्थ पदोन्नति उन्हें पदोन्नत ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति और उक्त ग्रेड में वरीयता के लिए किसी दावे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय इसका कोई कारण बताएं बिना समाप्त किया जा सकता है।

3. यह दिनांक 27 जनवरी, 2012 की समसंख्यक पूर्व अधिसूचना को अधिक्रमित करती है।

पी. के. कैलासा बाबु, अपर निदेशक (प्रशा.)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 27th January 2012

No. A-22017/1/2009-PME(Vol-II)—Consequent upon acceptance of his resignation by the Competent Authority, Dr. Harish Khare has relinquished charge of the post of Média Adviser to PM (on the personal staff of the Prime Minister) with effect from the forenoon of 21.01.2012.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A-22017/1/2009-PME—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Pachauri as Communications Adviser, on the personal staff of the Prime Minister in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India, with effect from the forenoon of 18th January, 2012.

2. The appointment of Shri Pankaj Pachauri on the personal staff of the Prime Minister is on co-terminous basis or until further orders, whichever is earlier.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 27th January 2012

No. RS-3/1(1)/2010/4-Perl.—In supersession of this Secretariat's Notification No. RS-3/1(1)/2010/113-Perl. dated 16.11.2010, No. RS-3/1(1)/2011/15-Perl. dated 17.02.2011 and No. RS-3/1(1)/2011/23-Perl. dated 01.03.2011, Shri H. Wilson, Shri Satis Mesra and Shri Baswa Nand, who were earlier appointed to officiate in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on in situ basis w.e.f. 22.12.2009 vide Notification No. RS-3/1/1/2009/105-Perl. dated 30th December, 2009, stand adjusted against regular vacancies in the said grade with effect from the forenoon of 16.11.2010, 15.02.2011 and 01.03.2011 respectively. Shri H. Wilson would rank senior to both Satis Mesra and Shri Baswa Nand in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer.

2. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

The 2nd February 2012

No. RS/20/1/2012/5-Perl.—On attaining the age of superannuation, Smt. Saroj Sharma, Director (P&P), retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS/20/1/2012/6-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Mahesh Chandra Mangal, Joint Director

(Reporting), retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2012.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 8th November 2011

No. F-3(6)/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Prasanta Kumar Mallick presently working as Joint Director, Lok Sabha Secretariat as Officer on Special Duty to the Minister of State for Parliamentary Affairs (Shri Harish Rawat) in the rank of Deputy Secretary in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 02.11.2011 (FN).

2. The appointment is for a period of 4 years on co-terminus basis with the tenure of the Minister of State for Parliamentary Affairs (Shri Harish Rawat) or till he ceases to function as OSD or until further orders, whichever occurs the earliest.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

The 21st November 2011

No. 3(9)/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Gyaneshwar Singh, IPS (HP : 1999) as Private Secretary to the Minister of State for Parliamentary Affairs (Shri Rajeev Shukla) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 17.11.2011 (AN).

2. The appointment is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of the Minister of State for Parliamentary Affairs (Shri Rajeev Shukla) or for a period not exceeding beyond 27.08.2015 i.e. the maximum of the combined tenure of 7 years admissible in both the stints (non-CSS & CSS posts under Central deputation) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

The 28th November 2011

No. 3(9)/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Murari Lal, presently working as Under Secretary in the Department of Health and Family Welfare as Additional Private Secretary to the Minister of State for Parliamentary Affairs (Shri Rajeev Shukla) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 24.11.2011 (FN).

2. The appointment is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of the Minister of State (Shri Rajeev Shukla) or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister of State, or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

The 30th December 2011

No. 3(6)/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ramesh Chandra Mohanty, as Deputy Secretary on ad hoc basis for a period of one year or till regular promotion to the grade, whichever is earlier, in the Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. forenoon of 02.01.2012.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

No. 3(11)/2010-Admn.—The Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs is pleased to appoint Shri Kiran Kumar, Assistant in the Ministry as Section Officer in an officiating capacity and on regular basis in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 30.12.2011, until further orders.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

No. 3(1)/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Jha, Section Officer in the Ministry as Under Secretary in an officiating capacity and on regular basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 30.12.2011, until further orders.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

The 4th January 2012

No. 3(1)/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Asok Behary Acharya, Section Officer in the Ministry as Under Secretary in an officiating capacity and on ad hoc basis in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 02.01.2012 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 31st January 2012

No. 6/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint Dr. Kaushik Gopalan as Scientist/Engineer-SD in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 08.09.2011 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion Kum. Harshida S Modi as Administrative Officer in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with

effect from the forenoon of 01.11.2011 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Ankesh Garg	01.08.2011
2.	Mohit Saraswat	08.08.2011
3.	Manoj Kumar Mishra	08.08.2011
4.	Megha Maheshwari	08.08.2011
5.	Mohd Furkan	08.08.2011
6.	Sri Ranganath Annam	09.08.2011
7.	Shilpa Midha	09.08.2011
8.	Jaydeep Kaintura	11.08.2011
9.	Pradyumna Sharma	11.08.2011
10.	Srimann Rakshit	11.08.2011
11.	Sunil Kumar	11.08.2011
12.	Ankush Kumar	11.08.2011
13.	Anurag Pushpakar	11.08.2011
14.	Qamer Saquib	11.08.2011
15.	Amit Kumar	11.08.2011
16.	Dheeraj Kumar Adlakha	17.08.2011
17.	Avinash Kumar	16.09.2011
18.	Shashi Kant Pandey	21.09.2011
19.	Bappaditya Ray	21.09.2011
20.	Vibhanshu Krishna Malpani	21.09.2011

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SG as Scientists/Engineers-G in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 21.10.2011 and until further orders :—

- Shri/Smt./Kum.
1. Asit Bhattacharya
 2. Dr. N. Padmanabhan

- Shri/Smt./Kum.
3. Dr. R. M. Gairola
4. Dr. Raj Kumar
5. A. S. Durai

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of superannuation the following Scientists/Engineers in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	R. Neelakantan	Scientist/Engineer-G	31.08.2011
2.	Dr. N. K. Patel	Scientist/Engineer-G	31.08.2011
3.	K. P. Gujarathi	Scientist/Engineer-SG	31.08.2011
4.	S. T. Patel	Scientist/Engineer-SD	30.09.2011
5.	Ragini B Shastri	Scientist/Engineer-SD	30.09.2011

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 6/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers-SD in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Soniya Nibhani	26.08.2011
2.	Monika Gupta	22.11.2011

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 27th January 2012

No. A.38012/1/2011-Admn.I(LD)—On attaining the age of superannuation, Shri Mahendra Kumar, Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2012.

M. R. BEERH, Dir. (Admn.)

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 30th January 2012

No. A-19/G-A/107—Ms. Padma Angmo (IIS:2002), whose services have been placed at the disposal of the Election Commission of India vide Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Office Memorandum No. 14/4/2011-EO(MM-I), dated 04.10.2011 and after having been relieved from the Department of Field Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, vide Office Order No. A-45011/2/2011-Admn., dated 19.12.2011, has taken over the charge of the post of Deputy Secretary, in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with the corresponding Grade Pay of Rs. 7,600/- under the Central Staffing Scheme, in the Election Commission of India w.e.f. 02.01.2012 (F/N).

She will continue on the said post for a period of four years from the date of her assumption of charge of the said post or until further orders, whichever is earlier.

AJOY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 26th December 2011

No. 14016/1/2010-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs appoints Shri Laxmi Narain (Date of Birth 01.02.1958) Inspector (D-I/70) of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years with effect from 5th July, 2011, i.e., the date on which his immediate Junior Inspector Harsh Mittar (D-I/753) was appointed to the Entry Grade of DANIPS. His promotion from 5th July, 2011 till the date of this order would be only notional and he will not be eligible for back wages. He will be entitled to any other consequential benefits, which may accrue to him under the rules. However, before effecting the said order, the Delhi Police may ensure that he continues to remain free from vigilance angle.

2. The appointment of Shri Laxmi Narain, Inspector of Delhi Police into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Vs. Union of India and Anr.

VYOMESH PANT, Section Officer

The 19th January 2012

No. 14016/15/2009-UTS-II—Under Clause (c) of sub-rule (2) of rule 7, read with sub-rule (1) of rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs appoints the following Feeder Grade Officers from the Government of NCT of Delhi to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years with effect from 25th November, 2010, i.e., the date on which their immediate Junior i.e., Ram Avatar Doharay was appointed to the Entry Grade of DANICS. Their promotion from 25th November, 2010, till date would be only notional and they will not be eligible for back wages. They will be entitled to any other consequential benefits, which may accrue to them under the rules :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Name of UT where employed
	S/Shri		
1.	R. S. Mehra (SC)	01.07.1957	Delhi
2.	M. L. Sirohi (SC)	11.08.1953	Delhi
3.	K. S. Meena (ST)	01.12.1959	Delhi
4.	Mange Ram (SC)	15.07.1956	Delhi
5.	Net Ram Narain (SC)	31.12.1954	Delhi
6.	Radha Charan (SC)	15.07.1956	Delhi
7.	Hukam Singh (SC)	20.01.1955	Delhi

The inter se seniority of officers mentioned above will be decided in due course.

2. However, before affecting the aforesaid order, Government of NCT of Delhi may ensure that they continue to remain free from vigilance angle.

VYOMESH PANT, Section Officer

No. 14016/15/2009-UTS-II—Under Clause (c) of sub-rule (2) of rule 7, read with sub-rule (1) of rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs appoints the following Feeder Grade Officers from the Government of NCT of Delhi and Andaman & Nicobar Islands Administration to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands,

Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Name of UT where employed
	S/Shri		
1.	Kanwar Vinay Rawal	21.06.1959	Delhi
2.	Om Prakash Pandey	10.05.1956	Delhi
3.	Shyam Lal Sharma	29.07.1956	Delhi
4.	Manmohan Sharma	14.11.1953	Delhi
5.	Subhash Chander	23.01.1959	Delhi
6.	Balwan Singh Vashisht	01.04.1958	Delhi
7.	K.S. Bhorla (SC)	05.10.1959	Delhi
8.	Satyapal Kaloria (SC)	15.08.1956	Delhi
9.	Lal Chand Meena (ST)	12.07.1956	Delhi

The inter se seniority of officers mentioned above will be decided in due course.

2. However, before affecting the aforesaid order, Government of NCT of Delhi may ensure that the officers continue to remain free from vigilance angle.

VYOMESH PANT, Section Officer

New Delhi-110001, the 23rd November 2011

No. 14016/18/2009-UTS-II—The President is pleased to appoint the following Entry Grade officers of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) to the Selection Grade of the Service in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (pre-revised) with effect from the dates indicated against their names:—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of appointment to Selection Grade
1	2	3	4
	S/Shri/Smt. Kum.		
1.	Sanjiv Kumar Pandey	11.04.1967	01.07.2003
2.	Pooja Gupta	01.10.1966	01.07.2003
3.	Balwan Singh Jaglan	02.12.1966	01.07.2003
4.	D. Verma	02.02.1967	01.07.2003
5.	P. S. Jani	23.12.1959	01.07.2003
6.	O. P. Mishra	23.01.1965	01.07.2004
7.	Geetika Sharma	22.09.1970	01.07.2004

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
8.	Arun Kumar Mishra	01.08.1969	01.07.2004
9.	Pankaj Kumar	18.07.1967	01.07.2004
10.	A Nedunchezhiyan	10.05.1967	01.07.2004
11.	Y.V.V.J. Rajasekhar	04.04.1969	01.07.2004
12.	Raj Kumar	28.08.1966	01.07.2004
13.	Neeraj Bharati (SC)	18.11.1966	01.07.2004
14.	Kamal Dev Dogra (SC)	18.03.1963	01.07.2004
15.	Philip Thangliamang (ST)	22.02.1964	01.07.2004
16.	R.P. Meena (ST)	10.07.1965	01.07.2004
17.	G. Sudhakar	20.05.1968	01.07.2005
18.	Ravi	15.04.1972	01.07.2005
19.	Gurpal Singh	03.06.1968	01.07.2005
20.	Ranjana Deshwal	07.01.1968	01.07.2005
21.	Mohd. Ashan Abid	06.09.1968	01.07.2005
22.	Sanjeev Kumar	05.03.1968	01.07.2005
23.	Rajesh Kumar	15.06.1971	01.07.2005
24.	Shamin Akhtar Tamanna	07.04.1970	01.07.2005
25.	C. Arvind	25.05.1965	01.07.2005
26.	Satnam Singh (SC)	01.03.1971	01.07.2005
27.	Eda Raja Babu (SC)	01.08.1967	01.07.2005
28.	Rajesh Chopra	19.01.1970	01.07.2006
29.	Manish Garg	03.07.1973	01.07.2006
30.	Sonika Singh	01.10.1974	01.07.2006
31.	Sandeep Kumar Mishra	30.06.1969	01.07.2006
32.	Mohammed Ali Ashraf	06.11.1971	01.07.2006
33.	Anil Kumar	20.09.1968	01.07.2006
34.	Anil Banka	05.02.1973	01.07.2006
35.	Bans Raj Ram (SC)	10.05.1965	01.07.2006

A. K. DAS, Under Secy.

DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi, the 1st February 2012

CORRIGENDUM

No. 44/14/2008-DM.IV—In the Notification dated 2nd December, 2010, the words “period upto 05.07.2012” in the last line may be read as “period upto 05.10.2012”.

ASHISH KUMAR PANDA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 19th January 2012

No. DIII/460/CF-15/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Dr. Yadugiri Kiran Kumar as Honorary Consul of the Republic of Bulgaria in Hyderabad with immediate effect.

The Consular Jurisdiction of Dr. Yadugiri Kiran Kumar comprises the State of Andhra Pradesh with the seat in Hyderabad.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 1st February 2012

No. A. 19012/8/2005-PA.—Consequent on his attaining the age of superannuation, Shri T.G. Ramakrishnan, Principal Private Secretary in the Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi retired from Government Service with effect from the afternoon of the 31st January, 2012.

R.C. MEENA, Under Secy.

No. A. 19013/6/2007-PA.—Consequent on her attaining the age of superannuation, Smt. Gloria Kumar, Deputy Secretary in the Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi retired from Government Service with effect from the afternoon of the 31st January, 2012.

R.C. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

(CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS)

New Delhi, the 23rd August 2011

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 26/2011 (F. No. A-32012/29/2009-Ad.II)—The President is pleased to promote Shri S. Wadia, the then Assistant Commissioner of Customs in the Junior Time Scale (Retd.) (Since expired) to the grade of Assistant Commissioner of Customs & Central Excise (Senior Time Scale) with effect from 17.08.1982, i.e. the date on which his junior Shri B.B. Chitnis was promoted to the said grade.

R. SANEHWAL, Director

New Delhi, the 27th June 2011

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 18 of 2011 (F.No.A.38012/07/2011-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary

Retirement of Shri Pradip Kumar Bhowmik, Assistant Commissioner of Central Excise, Kolkata-III with effect from 30.06.2011 (FN) under Rule 56(K) of the CCS (Pension) Rules, 1972.

SARVJIT SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 25th January 2012

No. A-19011/317/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Priya Kumar, Indian Information Service (IIS: 1991) as Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from forenoon of the 25th January, 2012 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 30th January 2012

No. PFG(1015)/2012-Ad.I—In pursuance to Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's Order No. P-1/2012 dated 19.01.2012 issued under File No. 13016/2/2011-IES Ms. Sibani Swain, an officer of Indian Economic Service on her promotion to Senior Administrative Grade of IES in Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- has assumed the charge of the post of Economic Adviser in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. the forenoon of 23rd January, 2012.

J.S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 24th January 2012

No. 3/2012(A-19011/26/2008-E.I.)—The President is pleased to appoint Smt. Sushmita Dasgupta as Economic Adviser, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry with effect from the forenoon of 20th January, 2012 and until further orders.

S.K. SHARMA, Under Secy.

The 16th January 2012

No. 2/2012(A-19011/24/2007-E.I.)—The President is pleased to appoint Ms. Anu Poulouse Mathai, Indian Economic Service (1995) as Director in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 16th January, 2012 for a period of five years or until further orders.

S.K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 6th January 2012

No. A-32014/2/2011-Cadre—The President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS, to officiate as Under Secretary of CSS cadre of Supply Division on ad-hoc basis, with effect from the date mentioned against their names, in pursuance of DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS. I(U), dated 15th December, 2011 :—

S. No.	CSL No.	Name	DoB	SOSL	Date of Joining/ Date of Promotion
		S/Shri			
1.	6942	Ram Niwas Parasher	06.01.1957	2003	23.12.2011 (F/N)
2.	7128	Dharamvir Yadav	08.02.1966	2003	22.12.2011 (F/N)

2. The ad-hoc promotion is for a period upto 31.05.2012 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier and subject to the conditions mentioned in DoP&T's Order No. 5/7/2011-CS. I(U), dated 15th December, 2011.

3. S/Shri Ram Niwas Parasher and Dharamvir Yadav, Under Secretaries, are posted to DGS&D against existing Vacancies.

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 27th January 2012

No. A-45011/3/2010/E.I.—In pursuance to Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/5/2011-CS. I(S) dated 19.01.2012, the President is pleased to allow Smt. Sheela Sharma a regular Assistant of the Central Secretariat Service, to Officiate as Section Officer on purely ad-hoc basis in the CSS Cadre of Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, w.e.f. 01.01.2012 to 31.01.2012, i.e. the date of her superannuation or till regular Section Officer is made available, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment has been made purely on ad-hoc basis and do not confer any right upon the officer to continue in the same post on long term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notice etc. to the officer concerned.

3. Smt. Sheela Sharma is clear from Vigilance Angle.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 1st February 2012

No. A-45011/04/2006/E.I.—The President is pleased to appoint the following officers who have been allocated to

the Central Secretariat Service Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, on the basis of the results of the Section Officer's Grade Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2006, as Section Officer's on regular basis for the select list Year 2006 in the CSS Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion with effect from the dates indicated against each, until further orders :—

S. No.	Name of the Officer	Rank No.	Date of appointment
1.	Shri Rahul Deo Diwakar	07	14.11.2011
2.	Shri Kulvinder Singh	26	21.11.2011
3.	Shri Asghar Ali	31	18.11.2011

2. The appointment of above Section Officers shall be subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (i) OA No. 1083/2007 MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI & Ors in CAT, New Delhi.

L. K. SHARMA, Under Secy.

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 30th January 2012

No. A-32015(1)/2009-Ec. Ad. (Admn. I)—The President is pleased to appoint the following Junior Investigators of the Office of the Economic Adviser as Economic Officers, Group 'B' Gazetted in the Pay Scale of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay Rs. 4,600/- in this Office on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 13.05.2011 to 12.5.2012 or till the regular incumbents joins this office whichever is earlier :—

1. Smt. Shalini Bhatnagar

2. Shri K. Appa Rao

The appointment is made purely on ad-hoc basis and does not confer any right upon the officer concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the

ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the Officer concerned.

S. S. NEGI, Economic Adviser

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 24th January 2012

No. P-23011/4/2010-Mkt.—In terms of Sub-section (1) of Section 4 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Bishnoi, as Member of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) for a period of 5 Years from the date of his assuming the charge of the post or till the age of 65 years or until further orders, whichever is earliest.

SUSHMA RATH, Director (Marketing)

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 11th July 2011

No. A-12011/9/2004-HR-II—The President is pleased to appoint Sh. Tapan Dutta, a regular Assistant Commissioner (Shipping) of Department of Fertilizers, to the post of Deputy Commissioner (Port, Operation & Project) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 04.07.2011 on promotion basis.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 7th September 2011

No. A-19011/11/2011-HR-II—Consequent on his promotion to Junior Time Scale of Indian Statistical Service on ad-hoc basis in the Scale of Pay of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- vide Office Order No. 12015/1/2011 (ISS) dated 30.08.2011 and Relieving Order of Meerut SRO No. 4/1/GA.O./Meerut/2011/3131 dated 05.09.2011 of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Shri Virendra Kumar is taken on the rolls of the Department of Fertilizers as Research Officer in the Scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- w.e.f. 07.09.2011 (F/N), "after availing one day joining time on 06.09.2011" till further Orders.

He is posted in the P&I Section.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 8th November 2011

No. A-19011/14/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Ajay Bhattacharya, IAS (TN : 77) as Secretary in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers with effect from the forenoon of 2nd November, 2011 in pursuance of Department of

Personnel & Training's O.M. No. 6/41/2011-EO (SM. I) dated 1st November, 2011.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 9th November 2011

No. A-32011/04/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Ms. Shobhana Menon as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on ad-hoc basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Combined Cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 01.11.2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 3/1/2011-CS. II (A) (Pt.), dated 25.10.2011.

2. The period of ad-hoc promotion would be upto 31.03.2012 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

3. The ad-hoc Promotion/Appointment is subject to the conditions mentioned in DOPT's O.M. No. 3/1/2011-CS. II (A) (Pt.), dated 25.10.2011.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 15th November 2011

No. A-32011/8/2007-HR-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/5/2011-CS. I(S) dated 04.10.2011, the President is pleased to appoint Shri S. K. Pandey and Smt. Geeta Johri, both regular Assistants of Central Secretariat Service as Section Officer of Central Secretariat Service, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on ad-hoc basis in the Department of Fertilizers, with effect from the forenoon of 9th November, 2011 upto 31.12.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier, subject to the terms and conditions contained in DoPT's aforesaid O.M.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 20th December 2011

No. A-23011/16/2010-HR-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/3/2011-CS. I(S) dated 27.10.2011 and consequent upon his qualifying Combined Section Officers'/Stenographers (Gr. 'B'/Gr. I) Limited Departmental Competitive Examination, 2008, the President is pleased to appoint Shri Yogesh Dhingra, a regular Assistants of Central Secretariat Service, as Section Officer of Central Secretariat Service, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis against the Select List Year 2008, in the Combined Cadre of the Department of Fertilizers, with effect from the forenoon of 18th November, 2011.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-23011/16/2010-HR-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/3/2011-CS. I(S) dated 27.10.2011 and consequent upon his qualifying Combined Section Officers'/Stenographers (Gr. 'B'/Gr. I) Limited Departmental Competitive Examination, 2008, the President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, a regular Assistant of Central Secretariat Service, as Section Officer of Central Secretariat Service, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis against the Select List Year 2008, in the Combined Cadre of the Department of Fertilizers, with effect from the forenoon of 18th November, 2011. Shri Vijay Kumar is posted in the Department of Chemicals & Petro-Chemicals with effect from the forenoon of 18th November, 2011.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-23011/16/2010-HR-II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/3/2011-CS. I(S) dated 27.10.2011 and consequent upon his qualifying Combined Section Officers'/Stenographers (Gr. 'B'/Gr. I) Limited Departmental Competitive Examination, 2007, the President is pleased to appoint Shri Shah Faiz Ahmed, a regular Assistant of Central Secretariat Service, as Section Officer of Central Secretariat Service, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis against the Select List Year 2007, in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, with effect from the forenoon of 1st December, 2011. Shri Shah Faiz Ahmed, Section Officer is posted in the Department of Pharmaceuticals with effect from the forenoon of 1st December, 2011.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 23rd December 2011

No. A-12011/11/2004-HR-II—The Competent Authority is pleased to appoint Sh. Suresh Kataria, Assistant Director (Functional) to the post of Assistant Director (Accounts), Group 'B' (Gazetted) in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on promotion basis w.e.f. 23.12.2011 (F/N) in the Department of Fertilizers.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 3rd February 2012

No. 12/12/2011-ASO—The President is pleased to appoint Shri Santosh Arun Patil, Deputy General Manager, Maharashtra State Agricultural Marketing Board, Pune as OSD to the Minister of State for Coal (Shri Pratik Prakashbapu Patil) at the level of Director (Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/-) with effect from 1st February,

2012 (FN) for a period of five years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

SHARAD GHODKE, Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 1st February 2012

No. 6-1/2006-BP-II(Notification)—The Central Vigilance Committee under Justice D.P. Wadhwa was constituted in pursuance of the Supreme Court Order dated 12.07.2006 in the matter of Writ Petition (Civil) No. 196 of 2001 PUCL versus Union of India to go into the maladies which are affecting proper functioning of Public Distribution System (PDS) vide notification of even number dated 01.12.2006. The tenure of the Central Vigilance Committee was extended up to 31.08.2007 as per the directions of Supreme Court vide notification of even number dated 08.05.2007. The term of Central Vigilance Committee was further extended for six months w.e.f. 11.01.2008 vide notification of even number dated 13.02.2008 and the intervening period w.e.f. 01.09.2007 to 10.01.2008 was treated as the extended period of the Central Vigilance Committee as per the directions of Supreme Court vide notification of even number dated 08.04.2008. The term of the Central Vigilance Committee was further extended up to April, 2009 and up to the end of December, 2009, upto June, 2010, upto 31.12.2010, upto 31.03.2011, upto 30.09.2011 and upto 31.12.2011 as per the directions of Supreme Court dated 11.07.2008, 17.04.2009, 07.12.2009, 05.05.2010, 15.12.2010, 29.03.2011 and 30.09.2011 vide notifications of even number dated 18.07.2008, 04.05.2009, 22.12.2009, 28.05.2010, 11.01.2011, 18.05.2011 and 03.11.2011 respectively.

2. The supreme Court of India vide its order dated 05.01.2012 has extended the tenure of the Central Vigilance Committee for a further period of six months i.e. till 30.06.2012.

3. Therefore, the term of Central Vigilance Committee is extended till 30.06.2012.

D. BHALLA, Jt. Secy.

New Delhi, the 2nd January 2012

No. A-32013/1/2010-E.I.—In pursuance of DoPT's order No. 5/7/2011-CS. I (U) dated 15th December, 2011, the President is pleased to appoint Smt. Asha Singhal, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to the post of Under Secretary (Grade-I) of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 16th December, 2011 in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-.

2. The appointment of Smt. Asha Singhal to Grade I (Under Secretary) of CSS is purely on ad-hoc basis for a period upto 31.05.2012 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders.

3. The above appointment is subject to the terms and conditions as mentioned in DoPT's above mentioned O.M. dated 15.12.2011.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 19th January 2012

No. A-38014/11/2011-E.I.—Shri Prem Kumar, Section Officer of CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January, 2012.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-38014/12/2011-E.I.—Shri Sushil Lawrence Singh, Section Officer of CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January, 2012.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2012

No. A-38012/1/2012-SRA—Shri K. M. Nimje, Deputy Director (S&R) General Central Services of Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution stands retired from Government Service voluntarily with effect from the forenoon of 1st February, 2012.

R. C. MANOCHA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-100016, the 27th January 2012

No. SM/01/08/2009—The President is pleased to appoint the following Army Officers on Secondment/absorption to Survey of India to officiate as Deputy Superintending Surveyor in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 5,400/- (Pre-revised Scale Rs. 8,000—13,500/-) in the Department with effect from the date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Reporting
1	2	3
1.	Major Kshitij S. Verma	15.11.2011
2.	Major Kunal S. Borkar	14.11.2011

1	2	3
3.	Major Arvind Jadli	16.11.2011
4.	Major Arjun Sampath	14.11.2011
5.	Major K. A. Grewal	14.11.2011
6.	Major Rajat Sharma	14.11.2011

NIRAJ K. GAYAGI, Director

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 31st January 2012

No. PrAO/MoES/Admn/PF of KKJ/2011-12/1841—The President is pleased to retire Shri Krishna Kumar Jauhari, Senior Accounts Officer from Government service on attaining the age of superannuation with effect from 31.01.2012 (AN).

JAGDISH PRASAD, Sr. Accounts Officer (Admn.)

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 22nd April 2010

No. 17015/01/2010-IFS-II—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules 1966, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, hereby allocate the officers mentioned in column 2 of the table below to the cadres mentioned in the corresponding entry in column 3 thereof.

Explanation : For the purpose of this notification, a cadre officer means a member of the Indian Forest Service appointed to the service on the basis of the results of the India Forest Service Examination, 2008 undergoing training at the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun:—

S. No.	Name of the Officer	Cadre to which allocated
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Ms. T. Uma	Kerala
2.	Shreenatha N.	Gujarat
3.	Abhishek Gautam	Madhya Pradesh
4.	Vinay Kumar	Uttarakhand
5.	Anjankumar B. N.	Kerala
6.	Ms. Kamala K.	Karnataka
7.	Rahul V. C.	Tamil Nadu
8.	Anupam Sahay	Madhya Pradesh

1	2	3
	(S/Shri)	
9.	V. S. N. V. Prasad	Andhra Pradesh
10.	Pankaj Kumar	Uttarakhand
11.	Prashant Kumar Singh	Madhya Pradesh
12.	Manoj Kumar Shukla	Uttar Pradesh
13.	R. Senthilkumaran	Gujarat
14.	Ram Chandra Rajguru	Uttarakhand
15.	Karthick V.	Orissa
16.	Agni Mitra	AGMUT
17.	Ms. Kiran Bai	Madhya Pradesh
18.	Abhishek Kumar Singh	Chhattisgarh
19.	Mohit Kumar Nigam	Rajasthan
20.	Ms. Harini V.	Rajasthan
21.	Shambhu Kumar	Rajasthan
22.	Sunil	Rajasthan
23.	Nameirakpam Jaswant	Sikkim
24.	Shashi Shankar	Rajasthan
25.	R. Adalarasan	Kerala
26.	T. V. Karikalan	Rajasthan
27.	Arun R. S.	Manipur-Tripura
28.	R. K. Amarjit Singh	Manipur-Tripura
29.	Vivekanand Jha	Chhattisgarh
30.	Abhijeet Agrawal	Bihar
31.	Thejasvi S. N.	Tamil Nadu
32.	Navneet Singh Bains	Punjab
33.	Vinod Kumar D. K.	Manipur-Tripura
34.	Tawheed Ahmad Deva	Jammu & Kashmir
35.	M. S. Arun Mahesh Babu	Orissa
36.	Prakash Chand Gogineni	Orissa
37.	Prateek Bhatia	Assam-Meghalaya
38.	Anisha Kalkoor M.	AGMUT
39.	Kamdi Hemant Bhaskar	Nagaland
40.	Kuldeep	AGMUT
41.	Saurabh Sharma	AGMUT
42.	Paras Mani Tripathi	AGMUT
43.	Ms. Minakshi Prasad	West Bengal

1	2	3
	(S/Shri)	
44.	N. Palanikanth	AGMUT
45.	Ms. C. Meenakshi	Maharashtra
46.	Sriram J.	Jammu & Kashmir
47.	B. Mohandass	Jammu & Kashmir
48.	T. Mohan Raj	Rajasthan
49.	Balaji Kari	Rajasthan
50.	Rajiv Dhiman	Uttarakhand
51.	Akash Kumar Verma	Uttarakhand
52.	Sanjaya Kumar Swain	Orissa
53.	Gopinath R.	AGMUT
54.	Harikesh Meena	Rajasthan
55.	C. Vidhyasagar	AGMUT
56.	Manivasagan S.	Chhattisgarh
57.	Ms. Banumathi G.	Manipur-Tripura
58.	Madhu V. Raj	Madhya Pradesh
59.	V. Baskaran	Jharkhand
60.	Ms. Yasodha K.	AGMUT
61.	T. Karuppasamy	Gujarat
62.	S. Prabhu	Manipur-Tripura
63.	Kirupasankar M.	Himachal Pradesh
64.	Sudhansu Sekhar Khora	Orissa
65.	Arulrajan P.	AGMUT
66.	Suratna Sur Shan Sher Sherpa	West Bengal
67.	Dharm Singh Meena	Uttarakhand
68.	Wahule Pradeepchandra P.	AGMUT
69.	T. Aochuba	Nagaland
70.	Purushothama P.	Gujarat
71.	Nainamalai R.	Assam-Meghalaya
72.	Shivanand S. Talawar	Manipur-Tripura
73.	Arun Kumar R.	Manipur-Tripura
74.	Millo Tasser	Nagaland

VIVEK SAXENA, Director

The 23rd January 2012

No. 24012/03/2010-IFS-II—The President is pleased to accept the resignation dated 19th May, 2010 of Shri Amar Prasad, IFS (JH : 1980) from Indian Forest Service with

immediate effect and accord consent for his permanent absorption in Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO), Noida.

2. On his permanent absorption in KRIBHCO, Shri Amar Prasad will be entitled to retirement benefits as admissible under Rule 37 of CCS (Pension) Rule, 1972.

VIVEK SAXENA, Director (IFS)

The 25th January 2012

No. 23012/01/2012-IFS.II—Shri Balbir Chand, an officer of the Indian Forest Service of 1976 batch borne on Punjab Cadre is permitted to change his name from Balbir Chand to Balbir Chand Bala and henceforth be known as Balbir Chand Bala for official purposes.

VIVEK SAXENA, Director (IFS)

New Delhi-110003, the 31st January 2012

No. A-12012/2/2011-CPW—The President is pleased to assign the charge of the post of the Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi to Smt. Mira Mehrishi, Additional Secretary in addition to her existing duties as Additional Secretary in Ministry of Environment & Forests, w.e.f. 2nd February, 2012 (forenoon) for a period of three month i.e. upto 1st May, 2012 or until further orders, whichever is earlier.

RASHID HASAN, Director (CP)

New Delhi-110003, the 31st January 2012

No. A-12021/2/2011-CPW—Consequent upon completion of his tenure as Chairman, Central Pollution Control Board, Delhi, the President is pleased to relieve Dr. Sant Prasad Gautam to the charge of the said post with effect from 1st February, 2012 (Afternoon).

N. A. SIDDIQUI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110 108, the 31st January, 2012

No. A. 12025/03/2010-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajesh Kumari to the post of Specialist Grade-II (Obst. & Gynae) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the forenoon of the 18th November, 2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/02/2010-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rekha Bharti to the post of Specialist Grade-II (Obst. & Gynae) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the afternoon of the 16th November, 2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPTT. OF HEALTH & F.W.

New Delhi-110108, the 18th January 2012

No. A. 32013/03/2010-Estt. I—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS on regular basis for the year 2010 in pursuance of Department of Personnel & Training's Office Orders No. 3/1/2012-CS.I(D), dated 30.12.2011 & 11.01.2012, Shri R K Parmar, Grade-I (Under Secretary) of the CSS in the Department of Health & Family Welfare is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis in the Department of Health & F.W. with effect from 06.08.2010 (AN) the date from his Junior Shri Om Prakash was promoted.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 30th January 2012

No. A-19012/02/2010-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2012-EO(SM-I) dated 27.01.2012, the President is pleased to appoint Ms. Anuradha Gupta, IAS (HY : 81) as Additional Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from forenoon of 30th January, 2012 in the vacancy of Sh. P. K. Pradhan, IAS (WB : 77).

ANIL KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY

New Delhi, the 6th February 2012

No. A-38012/2/09-E-I (AYUSH)—On attaining the age of superannuation, Dr. Janardan Panday, Joint Adviser (Ayurveda), Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from the Government Service with effect from 31/01/2012 (A.N.).

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 30th January 2012

No. A-38012/7/2011-Admn.I—Shri Jagan Nath Sharma, Principal Private Secretary of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.12.2011.

R. K. KALRA, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi-110114, the 23rd January 2012

No. L-12011/2/2011-I&P—The President is pleased to appoint Shri Chandra Bhushan Paliwal, IAS (UP : 81), as Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi in the scale of pay of Rs. 67,000 (annual increment @ 3%) - 79,000/- with effect from the afternoon of 10.1.2012 and until further orders.

R. K. SINGH, Director

New Delhi, the 30th January 2012

No. 19011/386/198 E.II—Consequent upon acceptance of her request for voluntary retirement from government service by the Competent Authority, Smt. Salimma George, Assistant Director (Crops), Department of Agriculture and Cooperation is allowed to retire Voluntarily from Government Service with effect from 1.1.2012 (FN), as per provisions of Rule-48 (A) of CCS (Pension) Rules 1972.

K. SANJAYAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 31st January 2012

No. A-15012/5/2011-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri Sukh Dayal Singh, Section Officer in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31.01.2012.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

No. A-15012/6/2011-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Dr. B. R. Acharya, Assistant Commissioner (Animal Husbandry) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31.01.2012.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

No. A-15012/09/2011-Admn.I—On attaining the age of Superannuation, Shri B. C. Mehta, Senior Principal Private Secretary in this Department retires from Government Service with effect from the afternoon of 31.01.2012.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

The 1st February 2012

No. A-19011/3/2012-Admn.I—In view of the recommendations of the Union Public Service Commission vide their Letter No. 3/35(7)/2011-ADT.2 dated 25.11.2011, the President is pleased to appoint Dr. V. K. Aroṇa as Joint Commissioner (Animal Husbandry) in the Scale of Pay of (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- N.P.A. (as Admissible) w.e.f. the forenoon of 01st February, 2012 in the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110011, the 24th October 2011

No. F.40-15/2010-Lib— Shri Munesh Sen, Library & Information Assistant in the Central Secretariat Library, Ministry of Culture has been promoted to the post of Assistant Library & Information Officer (General) Group 'B' Gazetted, on regular basis in the revised Pay Band of (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,600/- with effect from 03.01.2011 (FN).

N. R. MINZ, Under Secy.

The 25th January 2012

No. F.40-12/2011-Lib— Shri Rakesh Goswami, Library & Information Assistant in the Central Secretariat Library, Ministry of Culture has been promoted to the post of Assistant Library & Information Officer (General) Group 'B' Gazetted, on regular basis in the revised Pay Band of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,600/- with effect from 20.01.2012 (AN).

N. R. MINZ, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 31st January 2012

No. 13033/1/1996-SCD-VI—On attaining the age of Superannuation, Shri Vinay Ranjan Malhotra, Director (Joint Cadre) in the Ministry of Social Justice & Empowerment stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2012.

M. A. MURALEEDHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 25th January 2012

CORRIGENDUM

No. E-11011/7/2008-Hindi—In partial modification to this Ministry's Resolution of even number dated 29.11.2011, regarding Constitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Minority Affairs the entry of Serial No. (25) may be substituted as under :

FOR :

(25) Assistant Commissioner, Linguistic Minorities, Allahabad

READ :

(25) Commissioner, Linguistic Minorities.

E. R. SOLOMON, Jt. Secy.

New Delhi-110003, the 31st January 2012

No. A-22012/1/2006-Estt.—In pursuance of the decision of the Appointment Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/38/2011-EO (SM.I) dated 30th December, 2011, the President is pleased to appoint Shri Yashpal Singh IAS (MT : 84) as Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect 24th January, 2012 (F/N) or until further orders, whichever event takes place earlier.

LUCAS L. KAMSUAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st January 2012

No. 11019/2/2005-Estt.—In pursuance of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Office Order No. 13016/2/2011-IES dated 19.01.2012, the President is pleased to relieve Shri Amar Singh, IES:84, Adviser in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the afternoon of 31.01.2012 to take up his new assignment as Adviser, Directorate of Economic and Statistics.

2. The Services of Shri Amar Singh, Adviser in this Ministry shall stand placed at the disposal of Directorate of Economic and Statistics w.e.f. the afternoon of 31.01.2012.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 26th December 2011

No. A-32013/4/2010-Admn.-I—The President is pleased to appoint Shri Madan Chaurasia (CSL : 6884), SOSL : 2003, a regular Section Officer of CSS, as Grade-I (Under

Secretary) of CSS on ad hoc basis for a period upto 31.05.2012 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier, or until further orders w.e.f. upto 11.08.2011 in the Department of Telecommunications, Ministry of Communications & Information Technology in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in terms of Department of Personnel and Training's Order No. 5/7/2011-CS-I(U) dated 11.08.2011, 06.09.2011 and 14.12.2011 with effect from the forenoon of 11.08.2011.

2. The appointment of the Officers, as above, is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will undergo the aforesaid training within a period of six months.
- (iv) The ad hoc promotion of Officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P.R. Sharma Vs. UoI pending before the CAT, New Delhi.
- (v) As the CSL of SOs of 2003 is under challenge in several Applications pending before CAT, New Delhi as brought out in DoPT's O.M. dated 30.06.2011 publishing the CSL 2003 of SOs, the ad hoc promotion in so far as SOs of 2003 to the Grade of US is concerned is subject to the various Court Cases mentioned in the said O.M.

N. P. KESAVAN, Under Secy.

New Delhi-110001, the 31st January 2012

No. 100/11/2012-STGI—It is notified with deep regret that Shri Ram Sajivan (Staff No. 33383), an Officer of Senior Time Scale (ad hoc) of Indian Telecommunications Service Group-A, who was working as ADG (SU-III), in DoT Qtrs. New Delhi expired on 18.01.2012.

D. N. SAH, Under Secy. (SGT)

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 24th January 2012

No. 4(446)/89-Pers.I—Consequent upon the acceptance of notice of Voluntary Retirement from Government Service under Rule-48-A of CCS (Pension) Rules, 1972 by the Competent Authority, Shri R. K. Dubash, Scientist 'E' (Emp. Code—185), Department of Information Technology,

Ministry of Communications and Information Technology retires from Government Service w.e.f. 24.01.2012(FN).

P. D. KASHYAP, Jt. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 2nd February 2012

No. PF/3672/NIC/2010-Adm.I—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Gita Tikku, Emp. Code-3672 from the post of Scientist "C", NIC-Tamil Nadu State Unit, Chennai with effect from the last date of her attendance i.e. 10.03.2009 (A.N.) and She stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Admn.-I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 23rd January 2012.

No. E(O)III-2012/RN/02—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri Kumar Keshav, SAG/IRSE, (DoB : 22.07.60), (DITS-25.06.84) (Lien : SE Railway) has resigned from Railway Service with effect from 23.12.2011 (AN).

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 30th January 2012

No. E(O)III-2012/RN/08—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri O. H. Pande, SAG/IRSEE, (DoB : 30.06.1963, DITS-01.09.1986) has resigned from Railway Service with effect from 23.12.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)III-2012/RN/10—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri A. K. Garg, SAG/IRSEE, (DoB : 03.09.1959, DITS-16.06.1984) has resigned from Railway Service with effect from 23.12.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)III-2012/RN/12—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri A. K. Singh, SAG/IRSEE, (DoB : 09.04.1957, DITS-10.09.1984) has resigned from Railway Service with effect from 23.12.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 31st January 2012

No. ERB-I/2011/2/67—The President is pleased to appoint Shri R. Vijaya Mohan, HAG/IRSME, Adviser (Mechanical Engineering), Railway Board on promotion to Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from the forenoon of 12.01.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2011/2/66—The President is pleased to appoint Shri M Suresh, HAG/IRSSE, Adviser (Signal), Railway Board as Additional Member (Signal), Railway Board on promotion to Grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from the forenoon of 06.01.2012.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 1st February 2012

No. E(O)III-2012/RN/11—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri Mahendra Kumar, SAG(Non-Functional)/IRSEE, (DoB : 10.04.1964, DITS-05.05.1989) has resigned from Railway Service with effect from 23.12.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 2nd February 2012

No. E(O)III-2012/RN/13—Consequent upon his permanent absorption in IRCTC, Shri Virendra Singh, a Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railway Traffic Service has resigned from Railway Service with effect from 30.12.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)III-2012/RN/09—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri A. K. Gupta, SAG/IRSEE, (DoB : 26.06.1960, DITS : 16.06.1984) has resigned from Railway Service with effect from 23.12.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

No. E(O)III-2011/RN/21—Consequent upon his permanent absorption in MRVC, Shri Rakesh Saxena, a Higher Administrative Grade Officer of the Indian Railway Traffic Service (DoB : 25.11.1954, DITS : 14.12.1979) has resigned from Railway Service with effect from 04.11.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 18th January 2012

No. A-22012/1/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Dharendra Kumar Purbey, Section Officer (CSL No. 7102) as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad hoc basis, in the Ministry of Shipping in the Scale of Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay with effect from 29.12.2011 (AN) until further orders.

2. The appointment is subject to the conditions that the ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade I. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ASHWANI KUMAR, Dir. (Admn.)

The 24th January 2012

No. A-19011/3/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Munish Chandra Jauhari, IAS (AM : 87) as Joint Secretary in the Ministry of Shipping in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. 19.01.2012 (FN) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

ASHWANI KUMAR, Dir. (Admn.)

New Delhi-110001, the 22nd December 2011

No. A-22012/2/2011-Estt.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of the Central Secretariat Service as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad hoc basis, in the Ministry of Shipping in the Scale of Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay with effect from the dates mentioned against them, until further orders in terms of :—

- (i) Shri Supriya Ranjan Datta (CSL No. 6880), 03.10.2011 (FN)
- (ii) Shri Ajay Kumar Singh (CSL No. 6885), 03.10.2011 (FN)
- (iii) Smt. Kanchan Bala Hamza (CSL No. 6986), 24.08.2011 (FN)
- (iv) Shri Ramesh Chandra Sethi (CSL No. 7160), 24.08.2011 (FN)
- (v) Shri Pradeep Kumar Sharma (CSL No. 6930), 17.08.2011 (FN)

2. The deemed date of promotion of Shri Supriya Ranjan Datta and Shri Ajay Kumar Singh as Under Secretary is 11.08.2011.

3. The appointment is subject to the conditions that the ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for

regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ANURAG SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 2nd February 2012

No. 05/2012 (F. No. 12/14/2011-Adm.II)—On attaining the age of Superannuation, Shri Subhash Chander, Under Secretary, Ministry of Power retired from Government Service on the afternoon of the 31st January, 2012.

P. P. BOSE, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 1st February 2012

No. 16/2012 (F. No. 3/2/2011-Estt.I)—The President is pleased to appoint the following Officers on their promotion from Senior Administrative Grade of Central Water Engineering (Group-A) Service to the Higher Administrative Grade of the same Service in the Scale of Pay of Rs. 67,000—79,000/- w.e.f. the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name/Designation	Date of assumption of charge of the post
	S/Shri	
1.	Shankar Mahto, Chairman, GFCC, Patna	12.12.2011 (FN)
2.	C. M. Pandit, Member (WP&P), CWC, New Delhi	04.01.2012 (FN)

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd January 2012

No. A-12025/1/2009-IIS/87—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2010, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Singh (Rank No. 922) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 29.08.2011.

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director (News), NSD : AIR, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/3/2009-IIS/88—On the basis of the results of the Civil Services Examination 2010, the President is pleased to appoint Shri K. S. Ramesh Bharathi (Rank No. 910) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 04.01.2012.

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director (News), Doordarshan News, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/3/2008-IIS (Voll.II)/92—On the basis of the results of the Civil Services Examination 2009 (Reserved List), the President is pleased to appoint Shri Nitesh Jha (Rank No. 928) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 02.01.2012 (FN).

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director, Directorate of Advertising and Visual Publicity, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/3/2008-IIS (Voll.II)/93—On the basis of the results of the Civil Services Examination 2009 (Reserved List), the President is pleased to appoint Ms. Navika Gupta (Rank No. 907) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 30.12.2011 (FN).

2. She will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. She has been posted as Assistant Director (News), NSD : AIR, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/3/2008-IIS (Voll.II)/94—On the basis of the results of the Civil Services Examination 2009 (Reserved List), the President is pleased to appoint Shri Anurag Jain (Rank No. 944) in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from 30.12.2011 (AN).

2. He will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted as Assistant Director (M&C), Press Information Bureau, New Delhi until further orders.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DIRECTORATE OF PRINTING)

New Delhi, the 15th February 2012

No. 3/2/2011-Estt.—Consequent upon his appointment to the post of Director (Printing) on ad hoc basis vide Ministry of Urban Development, PSP Division's Office Order No. A-12023/1/2011-Ptg., dated the 13th January, 2012 Shri A. K. Sinha, Joint Director (Technical), in the

Directorate of Printing has taken over the Officiating charge of the post of Director (Printing) in the Revised Scale of (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- (Pre-revised Scale of Pay Rs. 16,400-400-18,300/-) with effect from the afternoon of 13th January, 2012 in the Directorate of Printing, Ministry of Urban Development until further orders or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion will not confer any right upon him to continue in the promotional grade or for any claim for regular appointment and seniority in that grade. Ad hoc appointment can be terminated at any time without assigning any reason therefor.

3. This supersedes the earlier Notification of even No. dated 27th January, 2012.

P. K. KAILASA BABU, Additional Dir. (Admn.)